



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 पौष 1941 (श0)

(सं0 पटना 39) पटना, बुधवार, 15 जनवरी 2020

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
6 दिसम्बर 2019

सं० 2/सी01-20-03/2019 गृ०आ०-10416—श्री बिरजू पासवान, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहते हुए विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) के द्वारा उन्हें "प्रोन्नति के योग्य" की अनुशंसा किये जाने एवं इसके आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रदत्त प्रोन्नति से उत्पन्न स्थिति पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग), पटना के संकल्प सं०-7457 दि० 11.09.2002 की कंडिका-11 में निहित प्रावधान के तहत प्रोन्नति की अनुशंसा को "मुहरबंद लिफाफा" में मानते हुए, उक्त विभागीय कार्यवाही से श्री पासवान को दोषमुक्त होने के पश्चात् कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के उक्त संकल्प की कंडिका-2 (VI) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-933 दिनांक 29.01.2019 के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर दी गई प्रोन्नति को यथावत रखते हुए इसके विरुद्ध भुगतान किए गये कार्य वेतन को विनियमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 39-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>